

(B)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० १३०] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल ९, १९६९/चैत्र १९, १८९१

[No. 130] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 9, 1969/CHAITRA 19, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह भलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 9th April 1969

S.O. 1410.—Whereas a vacancy has occurred in the House of the People by reason of the death of Shri S. N. Maiti, a member elected to that House from 30-Midnapore Parliamentary Constituency in the State of West Bengal;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 149 of the Representation of the People Act (43 of 1951), the Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect before the 15th May, 1969, in accordance with the provisions of the said Act and of the Rules and Orders made thereunder, a person to fill the said vacancy.

[No. 100/HP-WB/1/69(1).]

S.O. 1411.—In pursuance of the provisions of section 30 of the Representation of the People Act (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, with respect to the bye-election to be held in 30-Midnapore Parliamentary Constituency in the State of West Bengal in pursuance of its notification No. 100/HP-WB/1/69(1), dated the 9th April, 1969:—

- (a) the 16th April, 1969, as the last date for making nominations;
- (b) the 17th April, 1969, as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the 19th April, 1969, as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 11th May, 1969, as the date on which a poll shall if necessary, be taken; and

(e) the 15th May, 1969, as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/HP-WB/1/69(2).]

S.O. 1412.—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 7.30 A.M. to 4.30 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the House of the People from 30-Midnapore Parliamentary Constituency, to be held in pursuance of its notification No. 100/HP-WB/1/69(1), dated the 8th April, 1969.

[No. 100/HP-WB/1/69(3).]

By order,

A. N. SEN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 9 अप्रैल 1969

एस० प्रो० 1413.—यतः पश्चिमी बंगाल राज्य में के 30-मिदनापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित संसद्व्य श्री एस० एन० मैत्री की मृत्यु हो जाने से लोक सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है ;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, (1951 का 43) की धारा 149 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन क्षेत्र से एतद्वारा अपक्षा करता है कि वे ऐसे हुई रिक्त की भरने के लिए 15 मई, 1969 से पूर्व, उक्त अधिनियम के शीर्ष तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें ।

[सं० 100/लो० सं०-प० ब०/169 (1)]

एस० प्रो० 1414.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का 43 की धारा 30 के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/लो० सं०/प० ब०/1/69(1), तारीख 9 अप्रैल, 1969 के अनुसरण में पश्चिमी बंगाल राज्य में के 30—मिदनापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होने वाले उप-निर्वाचन के बारे में—

(क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख— 16 अप्रैल, 1969;

(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख— 17 अप्रैल, 1969;

(ग) अभ्यर्थिता वापस लेने की अन्तिम तारीख—19 अप्रैल, 1969;

(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो, तो मतदान होगा— 1 मई, 1969;

बचा

(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा—15 मई, 1969
द्वारा नियत करता है ।

[सं० 100/ लो० सं०-प० ब०/1/69(2)]

एस० नो० 1415.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का 43 की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/लो० सं०-प० व०/1/69 (1), तारीख 19 अप्रैल, 1969 के अनुसरण में 30—मिवनापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 7-30 बजे पूर्वाह्न से 4-30 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एकादश द्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, भतदान होगा।

[सं० 100/लो० सं०-प० व०/1/69(3)]

आदेश से,

ए० एन० सैन सचिव ।

